



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 2008/अग्रहायण 21, 1930

No. 652]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 2008/AGRAHAYANA 21, 1930

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 855(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-विनियम (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उड़ीसा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) बारहवाँ संशोधन विनियमावली, 2008 होगा।

(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "उड़ीसा" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

उड़ीसा

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	123	तैनाती हेतु न्यूनतम सेवावधि (वर्षों में)
सरकार के मुख्य सचिव और मुख्य विकास आयुक्त	1	-
सदस्य, राजस्व बोर्ड	1	2
मुख्य प्रशासक, के बी के	1	2
सरकार के अपर मुख्य सचिव	1	2
कृषि उत्पादन आयुक्त	1	2
सरकार के प्रधान सचिव	5	2
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1	2
अपर विकास आयुक्त और सचिव, सरकार योजना और समन्वय विभाग	1	2
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त, अनु. ज. जाति और अनु. जाति विकास	1	2

	राजस्व प्रभागीय आयुक्त	3	2
	भूमि सुधार आयुक्त	1	2
	आयुक्त, वाणिज्यिक कर	1	2
	आयुक्त, भूमि सुधार और बन्दोबस्त	1	2
	परिवहन आयुक्त	1	2
	राज्यपाल के आयुक्त-सह-सचिव	1	2
	सी एम के आयुक्त-सह-सचिव	1	2
	आयुक्त, चकबन्दी	1	2
	सरकार के आयुक्त-सह-सचिव	24	2
	विशेष राहत आयुक्त	1	2
	स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली	1	2
	सरकार के विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	1	2
	सरकार के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	22	2
	सचिव, राजस्व बोर्ड	1	2
	मजिस्ट्रेट और कलेक्टर	30	2
	अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप-कलेक्टर, ग्रेड-1/पीए,आईटीडीए	5	2
	पंजीयक, सहकारी समितियां	1	2
	निदेशक, अनु.ज.जाति और अनु.जाति विकास	1	2
	निदेशक, पंचायती राज	1	2
	निदेशक, उद्योग	1	2
	निदेशक, रोजगार	1	2
	महानिरीक्षक पंजीकरण	1	2
	उत्पाद शुल्क आयुक्त	1	2
	श्रम आयुक्त	1	2
	निदेशक, पर्यटन	1	2
	निदेशक, वस्त्र	1	2
	निदेशक, सामाजिक कल्याण	1	2
	निदेशक, विशेष परियोजना	1	2
	निदेशक, प्रारम्भिक और सामूहिक(मास) शिक्षा	1	2
	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	1	2
1	कुल वरिष्ठ इयूटी पद	123	
2	सी डी आर उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत की दर से	49	
3.	एस डी आर उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत की दर से	30	
4	टी आर उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत की दर से	4	
5	एल आर और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत की दर से	20	

6	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं	68
7	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5-6)	158
	कुल प्राधिकृत संख्या	226

[फा. सं. 11031/3/2004-अ.भा.से.-II(क)]

हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी (1) : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व उड़ीसा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 202 थी।

टिप्पणी (2) : मुख्य विनियम दिनांक 22 अक्टूबर, 1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् उड़ीसा संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि.संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1	386	22.03.75	10	85	13.02.93
2	574(अ)	08.12.78	11	294	12.06.93
3	619	28.04.79	12	469	25.09.93
4	770	09.06.79	13	319(अ)	31.03.95
5	598	27.06.81	14	739(अ)	31.12.97
6	776	18.09.82	15	477(अ)	29.06.99
7	470	20.06.87	16	246	22.06.2000
8	659	23.11.91	17	80(अ)	08.02.2008
9	438	03.10.92			

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2008

G.S.R. 855(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Orissa, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:-

- (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Twelfth Amendment Regulations, 2008.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "ORISSA" and the entries occurring there under, the following shall be substituted namely:-

ORISSA

	Senior Duty Posts under the State Government	123	Minimum tenure for posting (in years)
	Chief Secretary to the Government & Chief Development Commissioner	1	-
	Member, Board of Revenue	1	2
	Chief Administrator, KBK	1	2
	Additional Chief Secretary to Government	1	2
	Agriculture Production Commissioner	1	2
	Principal Secretary to Government	5	2
	Chief Electoral Officer	1	2
	Additional Development Commissioner & Secretary to Government Planning & Co-ordination Department	1	2
	Principal Secretary-cum-Commissioner, ST & SC Development	1	2
	Director General, Training Co-ordination, Gopabandhu Academy of Administration, Bhubaneswar	1	2
	Revenue Divisional Commissioner	3	2
	Commissioner Land Reforms	1	2
	Commissioner, Commercial Taxes	1	2
	Commissioner, Land Records & Settlement	1	2
	Transport Commissioner	1	2
	Commissioner-cum-Secretary to Governor	1	2
	Commissioner-cum-Secretary to CM	1	2
	Commissioner, Consolidation	1	2
	Commissioner-cum-Secretary to Govt.	24	2
	Special Relief Commissioner	1	2
	Resident Commissioner, New Delhi	1	2
	Special Secretary to Govt. General Administration Department	1	2
	Secretary/Additional Secretary/Joint Secretary/Deputy Secretary to Govt.	22	2
	Secretary, Board of Revenue	1	2
	Magistrates & Collectors	30	2
	Additional District Magistrate/Sub-Collector, Grade-I/PA, ITDA	5	2
	Registrar, Co-operative Societies	1	2
	Director, ST & SC Development	1	2

	Director, Panchayati Raj	1	2
	Director of Industries	1	2
	Director of Employment	1	2
	Inspector General of Registration	1	2
	Excise Commissioner	1	2
	Labour Commissioner	1	2
	Director of Tourism	1	2
	Director of Textiles	1	2
	Director, Social Welfare	1	2
	Director, Special Project	1	2
	Director, Elementary and Mass Education	1	2
	Director, Secondary Education	1	2
1	Total Senior Duty Posts	123	
2	CDR@ 40% of item 1 above	49	
3	SDR @ 25% of Item 1 above	30	
4	TR @ 3.5% of Item 1 above	4	
5	LR and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	20	
6	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1966 not exceeding 33.3% of Item 1,2,3 & 4 above	68	
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	158	
	TOTAL AUTHORISED STRENGTH	226	

[F. No. 11031/3/2004-AIS-II (A)]

HARISH C. RAI, Desk Officer

Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Orissa Cadre was 202.

Note (2): The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the Orissa Cadre by the following GSR Nos. and dates:

Sl.No.	GSR No.	Date	Sl.No.	GSR No.	Date
1	386	22.03.75	10	85	13.02.93
2	574(E)	08.12.78	11	294	12.06.93
3	619	28.04.79	12	469	25.09.93
4	770	09.06.79	13	319(E)	31.03.95
5	598	27.06.81	14	739(E)	31.12.97
6	776	18.09.82	15	477(E)	29.06.99
7	470	20.06.87	16	246	22.06.2000
8	659	23.11.91	17	80(E)	08.02.2008
9	438	03.10.92			

4872 45708-2

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 856(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उड़ीसा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चतुर्थ संशोधन नियमावली, 2008 है ।
(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 :-

“अनुसूची II-भाग क” में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में ” तालिका के प्रथम कॉलम की ‘उड़ीसा-उड़ीसा’ प्रविष्टि के लिए तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तद्रूपी प्रतिष्ठियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया

उड़ीसा

सरकार के मुख्य सचिव और विकास आयुक्त	80000/-रु०(नियत)
सदस्य, राजस्व बोर्ड	80000/-रु०(नियत)
मुख्य प्रशासक, के बी के	80000/-रु०(नियत)
सरकार के अपर मुख्य सचिव	पे बैंड-4:37400-67000रु०; और ग्रेड पे 12000/-रु०
कृषि उत्पादन आयुक्त	पे बैंड-4:37400-67000रु०; और ग्रेड पे 12000/-रु०
सरकार के प्रधान सचिव	पे बैंड-4:37400-67000रु०; और ग्रेड पे 12000/-रु०
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	पे बैंड-4:37400-67000रु०; और ग्रेड पे 12000/-रु०
अपर विकास आयुक्त और सचिव, सरकार योजना और समन्वय विभाग	पे बैंड-4:37400-67000रु०; और ग्रेड पे 12000/-रु०
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त, अनु.ज.जाति और अनु.जाति विकास	पे बैंड-4:37400-67000रु०; और ग्रेड पे 12000/-रु०

महानिदेशक, प्रशिक्षण समन्वय, गोपाबन्धु प्रशासनिक अकादमी, भुवनेश्वर	पे बैंड-4:37400-67000रु0; और ग्रेड पे 12000/-रु0
राजस्व प्रभागीय आयुक्त	पे बैंड-4:37400-67000रु0; और ग्रेड पे 10000/-रु0
भूमि सुधार आयुक्त	पे बैंड-4:37400-67000रु0; और ग्रेड पे 10000/-रु0
आयुक्त, वाणिज्यिक कर	पे बैंड-4:37400-67000रु0; और ग्रेड पे 10000/-रु0
आयुक्त, भूमि सुधार और बन्दोबस्त	पे बैंड-4:37400-67000रु0; और ग्रेड पे 10000/-रु0
परिवहन आयुक्त	पे बैंड-4:37400-67000रु0; और ग्रेड पे 10000/-रु0
राज्यपाल के आयुक्त-सह-सचिव	पे बैंड-4:37400-67000रु0; और ग्रेड पे 10000/-रु0
सी एम के आयुक्त-सह-सचिव	पे बैंड-4:37400-67000रु0; और ग्रेड पे 10000/-रु0
आयुक्त, चकबन्दी	पे बैंड-4:37400-67000रु0; और ग्रेड पे 10000/-रु0
सरकार के आयुक्त-सह-सचिव	पे बैंड-4:37400-67000रु0; और ग्रेड पे 10000/-रु0
विशेष राहत आयुक्त	पे बैंड-4:37400-67000रु0; और ग्रेड पे 10000/-रु0
स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली	पे बैंड-4:37400-67000रु0; और ग्रेड पे 10000/-रु0
विशेष सचिव, सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग	पे बैंड-4:37400-67000रु0; और ग्रेड पे 10000/-रु0

[फा. सं. 11031/3/2004-अ.भा.से. II(ख)]

हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी

4872 55/08-3

(ख) “अनुसूची II-भाग ख” में - वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान में, ‘ उड़ीसा ‘ शीर्षक के तहत आने वाली प्रतिष्ठियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

सरकार के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव
सचिव, राजस्व बोर्ड
मजिस्ट्रेट और कलेक्टर
अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप-कलेक्टर, ग्रेड-I/पीए,आईटीडीए
पंजीयक, सहकारी समितियां
निदेशक, अनु.ज.जाति और अनु.जाति विकास
निदेशक, पंचायती राज
निदेशक, उद्योग
निदेशक, रोजगार
महानिरिक्षक पंजीकरण
उत्पाद शुल्क आयुक्त
श्रम आयुक्त
निदेशक, पर्यटन
निदेशक, वस्त्र
निदेशक, सामाजिक कल्याण
निदेशक, विशेष परियोजना
निदेशक, प्रारम्भिक और सामूहिक(मास) शिक्षा
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

टिप्पणी : मुख्य विनियम दिनांक 20-3-2007 की सं. सा.का.नि. 213(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् दिनांक 10-1-2008 की सं. सा.का.नि. 23(अ) और दिनांक 19-9-2008 की सं. सा.का.नि. 665(अ) द्वारा संशोधित किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2008

G.S.R. 856(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Orissa hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely: -

- (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Fourth Amendment Rules, 2008.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007:-

In "Schedule II-Part A" posts carrying pay above the senior scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments", in the table, for the entry 'Orissa – Orissa' occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:

ORISSA

Chief Secretary to the Govt. & Chief Development Commissioner	Rs.80000/-(fixed)
Member, Board of Revenue	Rs.80000/-(fixed)
Chief Administrator, KBK	Rs.80000/-(fixed)
Additional Chief Secretary to Government	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.12000/-
Agriculture Production Commissioner	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.12000/-
Principal Secretary to Government	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.12000/-
Chief Electoral Officer	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.12000/-
Additional Development Commissioner & Secretary to Government Planning & Co-ordination Department	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.12000/-
Principal Secretary-cum-Commissioner, ST & SC Development	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.12000/-
Director General, Training Co-ordination, Gopabandhu Academy of Administration, Bhubaneswar	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.12000/-
Revenue Divisional Commissioner	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.10000/-
Commissioner Land Reforms	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.10000/-
Commissioner, Commercial Taxes	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.10000/-
Commissioner, Land Records & Settlement	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.10000/-
Transport Commissioner	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.10000/-
Commissioner-cum-Secretary to Governor	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.10000/-
Commissioner-cum-Secretary to CM	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.10000/-
Commissioner, Consolidation	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.10000/-
Commissioner-cum-Secretary to Govt.	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.10000/-
Special Relief Commissioner	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.10000/-
Resident Commissioner, New Delhi	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.10000/-
Special Secretary to Govt. General Administration Department	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.10000/-

[F. No. 11031/3/2004-AIS-II (B)]

HARISH C. RAI, Desk Officer

(b) In "Schedule II-Part B" Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special allowance in addition to pay, for the entries occurring under 'Orissa, the following shall be substituted, namely:-

Secretary/Additional Secretary/Joint Secretary/Deputy Secretary to Govt.
Secretary, Board of Revenue
Magistrates & Collectors
Additional District Magistrate/Sub-Collector, Grade-I/PA,ITDA
Registrar, Co-operative Societies
Director, ST & SC Development
Director, Panchayati Raj
Director of Industries
Director of Employment
Inspector General of Registration
Excise Commissioner
Labour Commissioner
Director of Tourism
Director of Textiles
Director, Social Welfare
Director, Special Project
Director, Elementary and Mass Education
Director, Secondary Education

Note : The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India, vide GSR No.213(E) dated the 20.03.2007 and subsequently were amended vide GSR No.23(E) dated 10.01.2008 and GSR No. 665(E) dated 19.09.2008.